



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 21] नई दिल्ली, मई 18-मई 24, 2008, शनिवार/वैशाख 28-ज्येष्ठ 3, 1930
 No. 21] NEW DELHI, MAY 18-MAY 24, 2008, SATURDAY/VAISAKHA 28-JYAISTHA 3, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
 Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, By-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, 19 मई, 2008

सा. का. नि. 100.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक विभाग, उपायुक्त (बन्दरगाह, प्रचालन और परियोजना) भर्ती नियम, 1992 में संशोधन करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

- (1) इन नियमों को उर्वरक विभाग, उपायुक्त (बन्दरगाह, प्रचालन और परियोजना) भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 कहा जाएगा।
- (2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- उर्वरक विभाग, उपायुक्त (बन्दरगाह, प्रचालन और परियोजना) भर्ती नियम, 1992 में :-
 - अनुसूची के लिए निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
उपायुक्त (बन्दरगाह, प्रचालन और परियोजना)	1*(एक) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय।	रु. 12000-375- 16500/-	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत स्वीकार्य होगा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएं, पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत
--	---	---	-------------------------------	--

7	8	9	10	11
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) और प्रोन्नति

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसकी संरचना क्या है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
---	--	---

12	13	14
प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) और प्रोन्नति : 1. केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/अर्द्ध सरकारी/वैधानिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों के अधीन कार्यरत वे अधिकारी :-	लागू नहीं	इस पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है।

- (क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित हों; अथवा
(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में रु.10000-15200 के वेतनमान के पदों अथवा समतुल्य पदों में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा हो; तथा

- (ख) जिन्हें निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव प्राप्त हों।

आवश्यक :

- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समतुल्य
(ii) उर्वरकों/खाद्यानों के रखरखाव से संबंधित बन्दरगाह प्रचालन का 3 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :

मान्यता-प्राप्त संस्थान से पोत परिवहन और बंदरगाह प्रबंधन में एसोसिएटशिप/फेलोशिप/डिप्लोमा या समतुल्य।

11. बाहरी व्यक्तियों के अतिरिक्त ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा करने वाले विभागीय सहायक आयुक्त (पोत परिवहन) (रु. 10000-15200) पर भी विचार किया जाएगा और यदि इस पद पर नियुक्ति हेतु उनका चयन हो जाता है, तो इस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा माना जाएगा। फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो सीधी प्रोन्नति के पात्र हैं, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति (आईएसटीसी) की पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा।

इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति को प्रोन्नति द्वारा नियुक्त करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी), जिसमें इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व, केन्द्र सरकार के समान अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में धारित किसी बाह्य संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) शामिल है, सामान्यतः 4 (चार) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा अधिनियम आयु सीमा आवेदनों की प्रप्ति की अंतिम तारीख तक 56 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

[फा. सं. ए-42011/1/2005-मा.सं.-II]

संजय कुमार सिन्हा, उप सचिव

टिप्पणी : प्रमुख नियमों को दिनांक 28-04-1973 की कृषि विभाग की अधिसूचना सं. ए-12018/2/71-स्था-1 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) द्वारा प्रकाशित किया गया था और इन्हें दिनांक 7-8-1992 की रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उर्वरक विभाग की अधिसूचना सं. ए-42011/1/90-स्थापना द्वारा संशोधित किया गया था, जिन्हें भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3(i) में दिनांक 28 अगस्त, 1992 को प्रकाशित किया गया।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Fertilizers)

New Delhi, the 19th May, 2008

G.S.R. 100.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Fertilizers, Deputy Commissioner (Port, Operations and Projects) Recruitment Rules, 1992, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Fertilizers, Deputy Commissioner (Port, Operations and Projects) Recruitment (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Fertilizers, Deputy Commissioner (Port, Operations and Projects) Recruitment Rules, 1992 (i) For the Schedule, the following Schedule shall be substituted namely :—

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Deputy Commissioner (Port, Operational and Projects)	*1 (one) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 12000-375-16500	Not applicable	Not applicable
Whether benefits of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972		Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7		8		9	10
Not applicable		Not applicable		Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

11	12
Composite method [deputation (ISTC)] plus promotion.	<p>Composite method [deputation (ISTC)] plus promotion :</p> <p>1. Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Public Sector Undertakings/Semi Government/Autonomous or Statutory Organisations</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department; or</p> <p>(ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in the scale of pay Rs. 10000—15200/- or equivalent in the parent/cadre Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>Essential :</p> <p>(i) Bachelor's Degree from a recognized University or equivalent.</p> <p>(ii) Three years experience of port operations relating handling of fertilizers/food grains.</p> <p>Desirable :</p> <p>Associateship/Fellowship/Diploma in Shipping and Port Management from a recognized institute or equivalent.</p> <p>II. The Departmental Assistant Commissioner (Shipping) (Rs. 10000—15200) with five years' regular service in the grade shall be also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (ISTC).</p> <p>Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 4 (four) years.</p> <p>The Maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years' as on the closing date of the receipt of applications.</p>
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Not applicable	Consultation with UPSC necessary for filling up to the post.

[F. No. A-42011/1/2005-HR.II]

SANJAY KUMAR SINHA, Dy. Secy.

Note :—The principal rules were published in the gazette of India, Part-II Section 3, sub-section (i) vide Department of Agriculture Notification No. A-12018/2/71-Estt. I dated 28-04-1973 and amended vide Notification of the Department of Fertilizers in the Ministry of Chemicals & Fertilizers, No. A-42011/1/90-Estt. dated 7-8-1992 published in the Gazette of India Part II, Section 3 (i) dated the 28th August, 1992.

कृषि मंत्रालय

(पशु पालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग)

नई दिल्ली, 15 मई, 2008

सा. का. नि. 101.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन (स्किपर) समूह “ख” पद भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशु पालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के अधीन केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन में स्किपर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मत्स्य, नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन स्किपर (समूह ‘क’ पद) भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
स्किपर	4*(2008) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ‘क’, राजपत्रित अनुनसचिवीय	रु. 10000-325-15200/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1732 GI/08-2

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रतिनियुक्ति/ द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	संयुक्त पद्धति, अर्थात् प्रतिनियुक्ति धन प्रोन्नति (विभागीय अधिकारियों पर भी बाहर वालों के साथ विचार किया जाएगा और उनके चयन किए जाने की दशा में, पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
--	--	--

12	13	14
----	----	----

प्रतिनियुक्ति :	लागू नहीं होता	पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है।
-----------------	----------------	--

I. केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश

पद धारण किया हुआ है; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में रु. 7450-11500 रुपये या सममूल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है ; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में रु. 6500-10500/- रुपये या सममूल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों :-

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समतुल्य।

(ii) वाणिज्यिक समुद्री विभाग द्वारा मत्स्यन जलयानों के लिए स्किपर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र।

(iii) मेट मत्स्यन जलयान सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् बोर्ड मत्स्यन जलयान पर पांच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

II. 7450-11500/- रुपये के वेतनमान में ऐसे विभागीय मेट पर, जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है और जो स्किपर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र रखते हैं, बाहर वालों के साथ विचार किया जाएगा और उसके चयन किए जाने की दशा में वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी

अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

[फा. सं. 3-17/2007-मा.प्रशा.]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE**(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)**

New Delhi, the 15th May, 2008

G.S.R. 101.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, Skipper, (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2003 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Skipper in the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin under the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries), namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin Skipper, (Group 'A' Post), Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Posts, Classification and Scale of Pay.**—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, Age Limit and other Qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and Other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added year of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension), Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Skipper	04* (2008) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 10,000-325-15,200	Not applicable	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	2 years for promotees.
Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which to be made		
11	12		
Composite method i.e. deputation plus promotion. (The departmental Officers will also be considered alongwith outsiders and in case, he/she is selected, the post shall deemed to have been filled by promotion).	<p>Deputation :</p> <p>I. Officers of the Central/State Governments/Union Territories Administration:—</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department; or</p> <p>(ii) With seven years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of Rs. 7450—11500 or equivalent in the parent cadre/Department ; or</p> <p>(iii) With eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6500—10500 or equivalent in the parent cadre/Department ; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>Essential :</p> <p>(i) Bachelor's Degree of a recognized University or equivalent.</p> <p>(ii) Certificate of Competency as Skipper for fishing vessels issued by the Mercantile Marine Department.</p> <p>(iii) Five years practical experience on board fishing vessels after obtaining Mate Fishing Vessel Competency Certificate.</p> <p>II. Departmental Mate in the pay scale of (Rs. 7450-11500) with seven years' regular service in the grade possessing the certificate of Competency as Skipper would also be considered along with outsiders and in case he/she is selected, post will be deemed to have been filled by promotion.</p> <p>The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment or deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)</p>		
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment		
13	14		
Not applicable	Consultation with UPSC is necessary for filling up of post.		

नई दिल्ली, 15 मई, 2008

सा. का. नि. 102.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (मेट) भर्ती नियम, 2007 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशु पालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के अधीन केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन में मेट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन, मेट, (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को वह किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
मेट	1 *(2008) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	रु. 7450-225-11500	चयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	
7	8	9	10	11	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति : जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	

1732 GI/08-3

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

12	13	14
<p>प्रोन्नति : 6500-10500 रुपये के वेतनमान में ऐसे मेट, श्रेणी-2 जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है और वाणिज्यिक समुद्री विभाग द्वारा जारी मत्स्यन जलयानों के लिए 'स्कूपर' के रूप में सक्षमता प्रमाण-पत्र रखते हैं।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी :</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 6500-10500 रुपये या सममूल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है ; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों :-</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समतुल्य।</p> <p>(ii) वाणिज्यिक समुद्री विभाग द्वारा जारी मत्स्यन जलयानों के लिए स्कूपर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र।</p> <p>(iii) मेट मत्स्यन जलयान सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् बोर्ड मत्स्यन जलयान पर दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।</p> <p>पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>	<p>प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति</p> <p>1. निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य, नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान — अध्यक्ष</p> <p>2. अवर सचिव (मत्स्य पालन), पशु पालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग — सदस्य</p> <p>3. उप निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य, नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, चैन्ई/विजाग — सदस्य</p> <p>4. यांत्रिक नौचालन इंजीनियर — सदस्य</p>	<p>किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

[फा. सं. 3-17/2007-मा.प्रशा.]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

New Delhi, the 15th May, 2008

G.S.R. 102.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, (Mate) Recruitment Rules, 2007 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Mate in the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin under the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, namely :—

1. **Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, Mate, (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Posts, Classification and Scale of Pay.**—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, Age Limit and other Qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be specified in columns (5) to (14) of the said schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(i) who has entered into or contracted a marriage, with a person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of these provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension), Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Mate	01* (2008) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 7450-225-11500	Selection	Not applicable
Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruitment		Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made
--	---

11

12

Promotion falling which by deputation.

Promotion :

Mate Grade-II in the pay scale of Rs. 6500—10500 with two years of regular service in the grade possessing 'Certificate of Competency as Skipper' for fishing vessels issued by Mercantile Marine Department.

Note : Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation :

Officers of the Central/State Governments/Union Territory Administration:—

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or
- (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6500—10500 or equivalent in the parent cadre/department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience :—
 - (i) Bachelor's Degree of a recognized University or equivalent.
 - (ii) Certificate of Competency as Skipper for fishing vessels issued by the Mercantile Marine Department.
 - (iii) Two years practical experience on board fishing vessels after obtaining Mate Fishing Vessel Competency Certificate.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion :—

- | | |
|--|-----------|
| 1. Director, Central Institute of Fisheries, Nautical Engineering and Training | —Chairman |
| 2. Under Secretary (Fisheries), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries | —Member |
| 3. Deputy Director, Central Institute of Fisheries, Nautical Engineering and Training, Chennai/Vizag | —Member |
| 4. Mechanical Marine Engineer | —Member |

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.

[F. No. 3-17/2007-Fy. Admn.]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.